



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 03.11.2022

1-थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा, नागरिकों को लोन दिलाने के नाम पर फर्जी बैंक कर्मचारी बन चेक लेकर धोखाधड़ी कर मैजिक पेन से फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से रुपये निकालने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर किया घटना का सफल अनावरण, गैंग सरगना सहित 02 गिरफ्तार।

दिनांक 02/11/2022 को थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा अभि0 1- अमित त्यागी पुत्र ओमकार त्यागी निवासी न्यू डिफेन्स कालोनी रेलवे रोड मुरादनगर थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद 2- आदिल पुत्र फय्याज अहमद निवासी एन 169 एरा गार्डन सोसाइटी थाना ब्रहमपुरी जिला मेरठ को डिवोन मार्किट सेक्टर 28 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 05 आईकार्ड विभिन्न बैंकों के व 19 आधार कार्ड बरामद हुये है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम दोनो जस्ट डॉयल से नम्बर निकालकर लोगो को लोन दिलाने को कहते है कुछ लोग हमारे झांसे में आ जाते है तो हम दोनो बैंक के एम्प्लाय बनकर उनके घर जाकर लोन से सम्बन्धित कागजात लेते है। जिसमें तीन कैसिल चेक भी लेते है। वह सारे पेपर लेकर आ जाता है तो हम लोग उन पर साइन कराते है साइन कराते समय हम लोग चालाकी से एक खाली चेक को निकाल लेते है उसे कैसिल नही करवाते है। अन्य चेक को कैसिल कराकर ले लेते है उसके बाद बिना कैसिल वाले मे रकम भरकर व फर्जी साइन बनाकर बैंक से रकम निकाल लेते है और फरार हो जाते है। बरामद आधार कार्डा से ये नये नये सिम खरीदते है और काम पूरा हो जाने के बाद उन्हे तोड़कर फेंक देते है और हमसे ये जो कई बैंको के आई कार्ड मिले है यही हम लोगो को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करते है इनको गले में डालकर जाते है जिससे किसी को हम पर शक नही होता है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. अमित त्यागी पुत्र ओमकार त्यागी निवासी न्यू डिफेन्स कालोनी रेलवे रोड मुरादनगर थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद
2. आदिल पुत्र फय्याज अहमद निवासी एन 169 एरा गार्डन सोसाइटी थाना ब्रहमपुरी जिला मेरठ

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 427/22 धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. 05 आईकार्ड विभिन्न बैंकों के
2. 19 आधार कार्ड विभिन्न व्यक्तियों के



#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए थाना ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा 08 माह बाद बेटे को मिली उसकी खोयी हुयी माँ।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.10.2022 को अपना घर आश्रम में रह रही एक महिला की ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा काउंसलिंग की गयी, जिसे दिनांक 16.02.2022 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा अपना घर आश्रम लाया गया। अपना घर आश्रम के अभिलेखों के अवलोकन से पाया कि महिला द्वारा अपना नाम कमलेश व पति का नाम बताया गया था, निवास का पता मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण नहीं बता पा रही थी। ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा तसल्ली देकर की गयी काउंसलिंग के दौरान कमलेश ने अपना सही नाम व पति का नाम बताया, जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी तीन बेटिया है जिनकी शादी हो चुकी है तथा नरेन्द्र नाम का एक लडका है एवं गांव का नाम छोटी गुलावटी है। मेरा 15-16 साल का लडका घर पर अकेला है मुझे उसके पास पहुँचा दो। इस पर थाना ए0एच0टी0यू0 टीम के द्वारा गांव को तलाश किया गया जो थाना जारचा के क्षेत्रान्तर्गत मिला। एस0एच0ओ0 जारचा का सहयोग लिया गया तथा ग्राम प्रधान का नम्बर लेकर महिला के परिजनों से बात कर महिला के बारे में बताया गया। महिला के परिजन अपना घर आश्रम सै0-34 नोएडा में आये। बेटे ने बताया कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है मैंने अपनी माँ को बहुत तलाश किया ,अब हम लोग अपनी माँ के मिलने की आश छोड चुके थे। माँ बेटे दोनो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और गौतमबुद्धनगर पुलिस को धन्यवाद दिया। महिला को बेटे के सुपुर्द किया गया।